


**OFFICE OF THE COLLECTOR & D. M, BHADRAK
(ST & SC Dev. Section)**

dwobhadrak@gmail.com 06784-240335/241415

Memo No. 488 /SSD

Date. 24.04.2024

The copy of Letter No. IPT/BBSR/AC-Admission/2024-25 dt.19.04.2024 of the Principal, Central Institute of Petrochemicals, Engineering & Technology (CIPET), Bhubaneswar is forwarded to all Principal of different Colleges in Bhadrak District for information & necessary action.


for 
District Welfare Officer,
Bhadrak

केन्द्रीय पेट्रोसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट)

रसायन एवं पेट्रोसायन विभाग
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार
आई पी टी : पेट्रोकेमिकल्स तकनीकी संस्थान
बी / 25, सी.एन.आई. कॉम्प्लेक्स, पटिया, भुवनेश्वर- 751024
फोन : 0674-2743462 / 767 / 863, 2744607
ई-मेल : bhubaneswar@cipet.gov.in
वेबसाइट : www.cipet.gov.in
मुख्यालय : गिण्डी, चेन्नई - 600 032



सिपेट CIPET



Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology (CIPET)

Department of Chemicals & Petrochemicals

Ministry of Chemicals & Fertilizers, Govt. of India

IPT : Institute of Petrochemicals Technology

B/25, C.N.I. Complex, Patia, Bhubaneswar-751 024

Phone : 0674-2743462 / 767/ 863, 2744607

E-mail : bhubaneswar@cipet.gov.in

Website : www.cipet.gov.in

Head Office : Guindy, Chennai - 600 032

CIPET: IPT/BBSR/AC - Admission/2024-25/

Date: 19-Apr-24

To

District Welfare Officer,
Bhadrak,
8763782496
Email: dwobhadrak@gmail.com

Sub.: Request to disseminate the information for the opportunities of +2 / 12th standard Science students of different Schools / Colleges for Admission into UG courses in Science & Engg. at CIPET:IPT-Bhubaneswar for JEE, 2024 - Reg.

Sir / Madam,

Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology (CIPET), is an ISO 9001:2015 certified premier National Institute under the Ministry of Chemicals & Fertilizers, Govt. of India fully devoted to Skill Development, Technology Support Services, **Academic** and Research (STAR) in all the domains of plastics viz:- Design, CAD/CAM/CAE, Tooling & Mould Manufacturing, Plastics processing, Testing and Quality assurance of plastics materials and products.

CIPET: IPT-Bhubaneswar was established in the year 1986 by the joint effort of Govt. of India & Govt. of Odisha, located at C. N. I. Complex, Patia, Bhubaneswar with an objective to cater the academic programmes in the field of Polymer Science and Engineering and to provide technically trained manpower to the polymer and allied industries. CIPET IPT Bhubaneswar is equipped with state-of-art technical infrastructure for providing application-oriented training which helps the students to enhance their employability. CIPET: IPT Bhubaneswar is conducting the AICTE approved and Biju Patnaik University of Technology (BPUT), Rourkela affiliated UG/PG programmes in science & engineering as per the details mentioned below. *The information regarding the process of Admissions – 2024 is herewith enclosed.*

Admissions Open for:

UG Programmes: (Entry Qualification: +2 / 12th standard Science Pass / Perusing)

Sl. No.	Name of the Course	Duration	Eligibility Criteria
1	B.Tech in Plastics Engg.	4 Yrs	Passed 10+2 level examination with Physics and Mathematics as compulsory subjects along with one of the subject as Chemistry / Biotechnology / Biology / Technical Vocational subject / Computer Science / Information Technology / Informatics Practices / Agriculture/ Engineering Graphics /Business Studies and should have atleast 45% marks (40% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the subjects taken together.
2	B.Tech in Manufacturing Engg. & Tech.	4 Yrs	OR Passed Diploma (in Engg. & Tech.) Examination with atleast 45% marks (40% marks in case of candidates belonging to reserved category), subject to vacancies in the First Year, in case vacancies at lateral entry is exhausted.

केन्द्र : अहमदाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, अजरतला, बही, बालासोर, बैंगलुरु, भागलपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंद्रपुर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद, हाजीपुर, हल्दिया, इम्फाल, जयपुर, कोच्ची, कोरबा, लखनऊ, मदुरै, मुरथल, मेसूरु, नवसारी, रायपुर, राँची एवं विजयवाडा


Centres : Ahmedabad, Amritsar, Aurangabad, Agartala, Baddi, Balasore, Bengaluru, Bhagalpur, Bhopal, Bhubaneswar, Chandrapur, Chennai, Dehradun, Guwahati, Gwalior, Hyderabad, Hajipur, Haldia, Imphal, Jaipur, Kochi, Korba, Lucknow, Madurai, Murthal, Mysuru, Navsari, Raipur, Ranchi & Vijayawada

केन्द्रीय पेट्रोसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट)

रसायन एवं पेट्रोसायन विभाग
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार
आई पी टी : पेट्रोकेमिकल्स तकनीकी संस्थान
बी / 25, सी.एन.आई. काम्प्लेक्स, पटिया, भुवनेश्वर- 751024
फोन : 0674-2743462 / 767 / 863, 2744607
ई-मेल : bhubaneswar@cipet.gov.in
वेबसाइट : www.cipet.gov.in
मुख्यालय : गिण्डी, चेन्नई - 600 032



सिपेट CIPET



Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology (CIPET)

Department of Chemicals & Petrochemicals
Ministry of Chemicals & Fertilizers, Govt. of India

IPT : Institute of Petrochemicals Technology

B/25, C.N.I. Complex, Patia, Bhubaneswar-751 024

Phone : 0674-2743462 / 767/ 863, 2744607

E-mail : bhubaneswar@cipet.gov.in

Website : www.cipet.gov.in

Head Office : Guindy, Chennai - 600 032

Integrated M.Sc. Programme: (Entry Qualification: 12th Sc. Pass)

Sl. No.	Name of the Course	Duration	Eligibility Criteria
1	Integrated M.Sc. in Material Sc. & Engg.	5 Yrs	Passed 10+2 level examination with Physics and Mathematics as compulsory subjects along with one of the subjects as Chemistry / Biotechnology / Biology / Technical Vocational subject / Computer Science / Information Technology / Informatics Practices / Agriculture / Engineering Graphics / Business Studies and should have at least 45% marks (40% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the subjects above taken together. OR Passed Diploma examination with at least 45% marks (40% in case of candidates belonging to reserved category).
2	Integrated M.Sc. in Polymer Science	5 Yrs	

IMPORTANT DATES: (1) Last date for filling online application: 29th May, 2024.
(2) Date of Examination: 04th June, 2024.

Link for Online Application: <https://forms.gle/SGJkWrj5gqdf5rE5A>

We are pleased to inform you that CIPET has a very good placement track record in India, as well as in overseas and have alumni network of around 60,000 globally.

In this regards, it is requested to circulate the information about admission in different UG courses at CIPET:IPT, Bhubaneswar to the Principal of schools and colleges of your district for creating awareness among the students. So that more and more students can apply to the above-mentioned courses and get an opportunities of quality educations with low cost.

Further, it is requested to provide the details of the students' database with name and mobile no. to CIPET Bhubaneswar in the mail id cipetiptybbsrjee@gmail.com so that the students can be contacted for making their carrier in the field of Plastics & allied sectors for better employability.

Admissions open – 2024 at CIPET:IPT-Bhubaneswar Courses : Integrated M.Sc. in Material Science & Engineering, B. Tech. (Plastics Engg.) & B. Tech. (Mfg. Engg. & Tech.), Contact: 9692417472/ 8170044113/8144919800 Last date for online application: 29.05.2024, for details visit : www.cipet.gov.in

The Admissions brochure-2024 may kindly be displayed in the Notice Board & the needful facilitations may be made for the wide circulation of the same for the benefit & employment of the students.

For any further queries, you are feel free to contact Dr. P. K. Mandal, Vice Principal, Mobile: 8170044113.

Thanking you.

Yours faithfully,

Principal
Mobile: 9437111344

Encl.: As above.

केन्द्र : अहमदाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, अगरतला, बदी, बालासोर, बेंगलुरु, भागलपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंद्रपुर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद, हाजीपुर, हल्द्विया, इम्फाल, जयपुर, कोच्ची, कोरबा, लखनऊ, मदुरै, मुरथल, मेसूरु, नवसारी, रायपुर, राँची एवं विजयपुर
Centres : Ahmedabad, Amritsar, Aurangabad, Agartala, Baddi, Balasore, Bengaluru, Bhagalpur, Bhopal, Bhubaneswar, Chandrapur, Chennai, Dehra
Guwahati, Gwalior, Hyderabad, Hajipur, Haldia, Imphal, Jaipur, Kochi, Korba, Lucknow, Madurai, Murthal, Mysuru, Navsari, Raipur, Ranchi & Vijayav